



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 18, संख्या 38.

20 सितम्बर 2003

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपये)

मद	2002	2003		घट-बढ़	
	13 सित.	5 सित.	12 सित. #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	2,55,515	2,89,141	2,89,679	538	34,164
संचलन में नोट	2,55,464	2,89,126	2,89,656	530	34,192
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	51	15	23	8	-28
जमाराशियां					
केन्द्र सरकार	101	100	101	1	—
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	63,292	71,518	72,505	987	9,213
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,503	1,456	1,603	147	100
अन्य बैंक	3,552	4,107	4,229	122	677
अन्य	7,174	7,890	8,004	114	830
अन्य देयताएं	1,11,969	1,14,186	1,15,257	1,071	3,288
कुल देयताएं / आस्तियां	4,43,146	4,88,439	4,91,419	2,980	48,273
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	2,84,900	3,84,252	3,85,158	906	1,00,258
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	15,563	17,058	17,058	—	1,495
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1,18,093	69,565	73,155	3,590	-44,938
ऋण और अग्रिम					
केन्द्र सरकार	5,732	—	—	—	-5,732
राज्य सरकारें	3,757	3,505	2,393	-1,112	-1,364
नाबार्ड	5,164	1,635	1,886	251	-3,278
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	9	1	1	—	-8
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	15	6	6	—	-9
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	1,362	1,178	1,177	-1	-185
खरीदे और भुनाये गये बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	4,373	4,473	4,473	—	100
अन्य आस्तियां	4,178	6,766	6,113	-653	1,935

⁽¹⁾ विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गयी राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किये गये निवेश शामिल हैं। ⁽²⁾ 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है। ⁽³⁾ इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भण्डार

मद	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	12 सित. 2003 को		सप्ताह		मार्च 2003 की समाप्ति पर		दिसम्बर 2002 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भण्डार	4,02,232	87,856	906	491	43,952	12,428	63,883	17,411	1,01,721	25,835
जिसमें से :										
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3,85,158	84,132	906	490*	43,682	12,242	63,384	17,138	1,00,258	25,329
(ख) स्वर्ण	17,058	3,720	—	—	273	186	516	276	1,495	512
(ग) विशेष आहरण अधिकार	16	4	—	1	-3	—	-17	-3	-32	-6
जापान मद : आरटीपी **	5,348	1,168	938	208	2,158	496	2,167	506	2,213	521

* : अ.डा. के रूप में दर्शायी गयी विदेशी मुद्रा आस्तियों में भण्डार में रखी गयी अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : विदेशी मुद्रा भण्डार में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के पास रखे भारत के प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) शामिल नहीं है। आइएमएफ के साथ वित्तीय लेनदेन योजना के अंतर्गत भारत के लेनदेनों तथा साथ ही रुपया और अमरीकी डालर की तुलना में एसडीआर विनिमय दरों में परिवर्तनों के कारण आरटीपी में समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपये)

मद	5 सित. 2003 को बकाया #	घटबढ़				
		पखवाड़ा	अब तक के वित्त वर्ष		वर्ष-दर-वर्ष	
			2002-2003	2003-2004	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	38,657	895	6,557	-1,797	3,356	672
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	17,125	-140	-1,255	-2,513	-651	-1,869
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	2,494	24	210	240	661	61
अन्यों के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां@	13,74,373	12,092	1,22,670	93,520	1,89,530	1,48,343
		(0.9)	(11.1)	(7.3)	(18.3)	(12.1)
			[11.6]	[7.6]	[19.1]	[12.5]
मांग	1,78,393	3,884	-62	8,103	12,193	25,407
मीयादी @	11,95,980	8,207	1,22,732	85,416	1,77,337	1,22,937
उधार ⁽³⁾	17,390	290	6,740	4,752	7,787	7,621
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1,31,623	2,575	3,851	1,817	20,336	15,889
रिजर्व बैंक से उधार	1	—	-3,405	-78	-5,071	-210
पास में नकदी एवं रिजर्व बैंक के पास शेष	79,975	1,937	13,978	14,073	-1,366	-2,651
पास में नकदी	8,457	85	-301	889	-39	2,513
रिजर्व बैंक के पास शेष	71,518	1,853	14,279	13,183	-1,327	-5,164
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	16,422	436	-218	-766	936	-1,353
मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	27,712	-1,688	1,340	-4,423	717	-252
बैंकों को अग्रिम	7,961	291	2,042	815	5,789	347
अन्य आस्तियां	2,680	133	-249	130	186	255
निवेश⁽⁵⁾	6,29,109	10,583	60,891	81,563	90,091	1,29,949
		(1.7)	(13.9)	(14.9)	(22.0)	(26.0)
सरकारी प्रतिभूतियां	6,01,705	10,610	62,184	78,288	93,581	1,28,345
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	27,404	-27	-1,293	3,275	-3,490	1,604
बैंक ऋण	7,32,904	5,660	68,271	3,689	1,30,206	74,911
		(0.8)	(11.6)	(0.5)	(24.7)	(11.4)
खाद्य ऋण	41,606	324	2,199	-7,873	6,108	-14,571
खाद्येतर ऋण	6,91,298	5,336	66,071	11,562	1,24,098	89,482
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	6,89,536	5,798	68,568	7,463	1,26,666	73,361
देशी बिल - खरीदे गये	6,044	1,037	-533	459	-225	1,546
भुनाये गये ⁽⁶⁾	17,852	-1,322	-97	-2,333	858	-334
विदेशी बिल - खरीदे गये	8,703	-1	467	-1,047	1,167	-852
भुनाये गये	10,770	148	-133	-854	1,740	1,190
नकद-जमा अनुपात	5.82					
निवेश-जमा अनुपात	45.77					
ऋण-जमा अनुपात	53.33					

@ : इसमें 28 अगस्त 1998 से रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड से हुए 17,945 करोड़ रुपये के आगम तथा 17 नवम्बर 2000 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट से हुए 25,662 करोड़ रुपये के आगम भी शामिल हैं। इटैलिक में दिये गये आंकड़े रिसर्जेंट इंडिया बॉण्ड तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट को छोड़कर निवल राशियों में हुआ प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिये गये उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना सम्भव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्यों के प्रति देयताएं' की तदनुसूची में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, आइडीबीआई, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिये गये निवेश एसएलआर प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिये गये अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाये गये बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित अवधि में प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयों का प्रभाव शामिल है।

4. प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

मद / सप्ताहांत	2002	2003					
	6 सित.	1 अगस्त	8 अगस्त	15 अगस्त	22 अगस्त	29 अगस्त	5 सित.
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.00	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
बैंक दर	6.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
मूल उधार दर ⁽³⁾	11.00-12.00	10.50-11.50	10.50-11.50	10.50-11.50	10.50-11.50	10.50-11.50	10.50-11.50
जमा दर ⁽⁴⁾	7.00-8.00	5.00-6.00	5.00-6.00	5.00-6.00	5.00-6.00	5.00-6.00	5.00-6.00
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गये उधार	4.25/6.15	3.00/5.50	3.00/6.25	3.50/5.50	3.95/5.30	3.45/5.10	3.00/4.75
- दिये गये उधार	4.50/6.55	3.00/5.10	3.00/6.25	3.50/5.50	4.00/5.35	3.45/5.10	3.00/4.75

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (3) पांच मुख्य बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (4) एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों के लिए प्रमुख बैंकों की जमा दर। (5) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेनों का 90-95 प्रतिशत आ जाता है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बाण्डों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये)

मद	2003 - 2004			2002 - 2003		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (3)-(2)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (6)-(5)
	2003			2002		
	21 मार्च	5 सित.		22 मार्च	6 सित.	
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक ऋण	7,29,215	7,32,904	3,689 (0.5)	5,89,723	6,57,993	68,271 (11.6)
अ. खाद्य ऋण	49,479	41,606	-7,873	53,978	56,178	2,199
आ. खाद्येतर ऋण	6,79,736	6,91,298	11,562 (1.7)	5,35,745	6,01,816	66,071 (12.3)
2. निवेश	92,854	89,841@	-3,013	81,000	87,548 +	6,549
अ. वाणिज्यिक पत्र	4,007	3,894	-113	8,497	7,522	-975
आ. निम्न द्वारा जारी शेयर (क+ख)	9,019	8,624	-395	5,914	9,072	3,159
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	1,430	1,318	-112	1,587	1,456	-131
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	7,589	7,306	-283	4,327	7,617	3,290
इ. निम्न द्वारा जारी बाण्ड/ डिबेंचर (क+ख)	79,828	77,322	-2,505	66,589	70,953	4,364
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	46,854	46,736	-118	39,520	39,841	321
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	32,973	30,587	-2,387	27,069	31,112	4,043
3. वित्तीय संस्थाओं के पास पुनःभुनाये गये बिल	105	693 @@	588	906	341 ++	-565
4. कुल (1आ+2+3)	7,72,695	7,81,831	9,137	6,17,650	6,89,705	72,055

@ : 22 अगस्त 2003 तक.

@@ : 31 अगस्त 2003 तक.

+ : 23 अगस्त 2002 तक

++ : 31 अगस्त 2002 तक.

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

3. इनमें 3 मई 2002 से हुए विलयों का प्रभाव शामिल है।

6. विदेशी मुद्रा दरें - हाजिर और वायदा प्रीमियम

विदेशी मुद्रा		2002						2003					
		13 सित.	8 सित.	9 सित.	10 सित.	11 सित.	12 सित.	13 सित.	8 सित.	9 सित.	10 सित.	11 सित.	12 सित.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)							विदेशी मुद्रा प्रति रु. 100@ (मध्य दरों पर आधारित)						
अमरीकी डालर		48.4500	45.8500	45.8100	45.7700	45.7200	45.7800						
यूरो		47.5800	50.7800	50.9000	51.3600	51.4400	51.1800						
फेडरल की सांकेतिक दरें (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)													
अमरीकी डालर	{	खरीद 48.4450	45.8400	45.8050	45.7550	45.7050	45.7600	2.0640	2.1810	2.1829	2.1848	2.1872	2.1844
	{	बिक्री 48.4550	45.8500	45.8150	45.7650	45.7150	45.7700						
पौण्ड	{	खरीद 75.6125	72.7675	72.6275	72.8375	72.8075	72.9650	1.3226	1.3744	1.3762	1.3721	1.3728	1.3699
स्टर्लिंग	{	बिक्री 75.6525	72.8050	72.6500	72.8750	72.8325	72.9950						
यूरो	{	खरीद 47.5975	50.7625	50.9175	51.3925	51.3850	51.1500	2.1017	1.9693	1.9646	1.9470	1.9440	1.9539
	{	बिक्री 47.6225	50.7925	50.9425	51.4175	51.4025	51.1750						
100 येन	{	खरीद 40.5400	39.1200	39.2600	39.1675	39.0050	39.0800	246.80	255.71	254.27	255.21	256.30	255.68
	{	बिक्री 40.5650	39.1375	39.2725	39.1925	39.0200	39.1075						
अमरीकी डालर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमियम (प्रतिशत वार्षिक)													
1 - माह		3.96	1.83	2.10	2.10	1.57	1.57						
3 - माह		4.05	1.22	1.31	1.22	0.96	1.05						
6 - माह		4.09	1.31	1.35	1.31	1.22	1.27						

@ : ये दरें अमरीकी डालर के लिए रिजर्व बैंक की संदर्भ दर और परस्पर लेनदेन मुद्रा भाव की मध्य दरों पर आधारित हैं। 29 जनवरी 1998 से लागू ये दरें रिजर्व बैंक द्वारा घोषित हैं।

टिप्पणी : 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टाक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपये)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2003		पखवाड़ा		वित्त वर्ष - अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2002-2003		2003-2004		2002		2003	
	31 मार्च #	5 सित. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम ₃	17,25,222	18,35,520	13,129	0.7	1,43,947	9.6	1,10,297	6.4	2,36,401	16.8	1,93,218	11.8
	[16,95,551]				[1,06,588]	[7.1]			[1,99,042]	[14.2]		
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	2,70,983	2,85,174	948	0.3	11,898	4.9	14,191	5.2	31,529	14.3	32,482	12.9
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	1,98,602	2,06,049	3,961	2.0	-1,027	-0.6	7,448	3.8	13,944	8.5	27,877	15.6
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा @	12,52,396	13,40,041	8,352	0.6	1,32,417	12.3	87,645	7.0	1,91,080	18.8	1,32,113	10.9
	[12,22,725]				[95,058]	[8.8]			[1,53,721]	[15.1]		
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,242	4,255	-132	-3.0	659	23.1	1,013	31.2	-153	-4.2	746	21.3
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	6,78,059	7,16,954	9,744	1.4	53,480	9.1	38,895	5.7	80,996	14.4	73,910	11.5
(क) रिजर्व बैंक	1,20,679	73,099	-1,687	-2.3	-11,546	-7.6	-47,581	-39.4	-19,572	-12.2	-67,533	-48.0
(ख) अन्य बैंक	5,57,379	6,43,855	11,431	1.8	65,026	14.9	86,476	15.5	1,00,568	25.0	1,41,443	28.2
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क +ख)	9,06,612	9,14,214	5,513	0.6	68,320	9.0	7,602	0.8	1,33,077	19.2	86,247	10.4
(क) रिजर्व बैंक	3,048	2,978	27	0.9	-3,003	-50.6	-70	-2.3	-6,925	-70.3	52	1.8
(ख) अन्य बैंक	9,03,564	9,11,236	5,486	0.6	71,323	9.5	7,672	0.8	1,40,003	20.4	86,195	10.4
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3,93,715	4,36,763	8,829	2.1	41,292	13.3	43,048	10.9	91,313	35.0	84,437	24.0
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	7,071	7,073	—	—	362	5.7	1	—	1,007	17.6	344	5.1
(v) बैंकिंग क्षेत्र की मीयादी जमा से भिन्न निवल मुदेतर देयताएं	2,60,234	2,39,484	10,958	4.8	19,506	11.6	-20,750	-8.0	69,993	59.4	51,720	27.5
उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	1,27,141	1,09,772	4,189	4.0	10,307	10.2	-17,370	-13.7	24,206	27.7	-1,755	-1.6

@ : इसमें रिसर्जेंट इंडिया बाण्ड के माध्यम से 28 अगस्त 1998 से प्राप्त रु.17,945 करोड़ और इंडिया मिलेनियम डिपाजिट के माध्यम से 17 नवम्बर 2000 से प्राप्त रु.25,662 करोड़ की राशि शामिल है।

[] में दिये गये आंकड़ों में 3 मई 2002 से हुए विलयों का प्रभाव शामिल नहीं है।

8. प्रारक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपये)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2003		सप्ताह		वित्त वर्ष - अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2002-2003		2003-2004		2002		2003	
	31 मार्च #	12 सित. #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रारक्षित मुद्रा	3,69,061	3,79,435	1,900	0.5	-3,906	-1.2	10,373	2.8	28,177	9.2	45,370	13.6
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	2,82,473	2,96,729	530	0.2	11,218	4.5	14,256	5.0	33,483	14.6	34,537	13.2
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा	83,346	78,337	1,256	1.6	-15,801	-18.8	-5,009	-6.0	-5,372	-7.3	9,990	14.6
(iii) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,242	4,369	114		676		1,127		67		844	
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया निवल ऋण :	1,20,679	75,571	2,472	3.4	-24,649	-16.2	-45,108	-37.4	-26,249	-17.1	-51,958	-40.7
जिसमें से - केन्द्र को	1,12,985	73,219	3,585		-17,571		-39,765		-25,899		-50,593	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - जिसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	10,208	6,093	250	4.3	-7,205	-43.2	-4,116	-40.3	-11,530	-54.9	-3,379	-35.7
	7,160	3,116	251		-4,336		-4,045		-4,753		-3,297	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3,58,244	4,02,198	906	0.2	36,477	13.8	43,954	12.3	84,613	39.2	1,01,752	33.9
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	7,071	7,073	—		362		1		1,007		344	
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	1,27,141	1,11,500	1,728		8,891		-15,642		19,664		1,389	

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो की नीलामी

(करोड़ रुपये)

च.समा.सु. तारीख	रेपो/रिरेपो अवधि (दिन)	रेपो					रिवर्स रेपो					प्रणाली में डाली (+)/से निकाली गयी (-) निवल चलनिधि (11-6)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		न्यूनतम दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		न्यूनतम दर (%)		
		सं.	राशि	सं.	राशि		सं.	राशि	सं.	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8 सित. 2003	1	36	21,740	36	21,740	4.50	—	—	—	—	—	-21,740	21,740
8 सित. 2003	14	7	16,870	7	16,870	4.50	—	—	—	—	—	-16,870	38,610
9 सित. 2003	1	34	16,265	34	16,265	4.50	—	—	—	—	—	-16,265	33,135
10 सित. 2003	1	29	18,040	29	18,040	4.50	—	—	—	—	—	-18,040	34,910
11 सित. 2003	1	28	14,940	28	14,940	4.50	—	—	—	—	—	-14,940	31,810
12 सित. 2003	3	32	9,105	32	9,105	4.50	—	—	—	—	—	-9,105	25,975

@ : रिवर्स रेपो को घटाकर। इसमें 14-दिवसीय रिपो शामिल हैं। '—' : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

10. 91-दिवसीय भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			पर भार		कुल निर्गम (8+9+10+11)	भारित औसत मूल्य	न्यूनतम मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य		प्रा.व्यापारी / अनुबंधी व्यापारी*	भारि बैंक				
				प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी		प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2002-2003														
1 जन.	3 जन.	1,000	49	3,385	400	33	1,000	400	—	—	1,400	98.67	5.4328	7,600
2003-2004														
1 अप्रैल	4 अप्रैल	500	32	950	—	20	500	—	—	—	500	98.66	5.4739	8,727
2 जुलाई	4 जुलाई	500	31	778	—	25	500	—	—	—	500	98.77	5.0223	7,488
10 सित.	12 सित.	1,500	63	4,873	100	12	1,500	100	—	—	1,600	98.86	4.6126	13,038

* : 14 मई 1999 की नीलामी से प्रभावी, भार (डिवाल्वमेंट) की राशि केवल भारिबैंक पर होगी।

टिप्पणी : एक समान मूल्यों पर नीलामी 6 नवम्बर 1998 से शुरू की गई। 11 दिसंबर 2002 से नीलामी का फार्मेट बहुविध मूल्य पर नीलामी में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. 364-दिवसीय भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			पर भार		कुल निर्गम (8+9+10+11)	भारित औसत मूल्य	न्यूनतम मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य		प्रा.व्यापारी / अनुबंधी व्यापारी*	भारि बैंक				
				प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी		प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2002-2003														
8 जन.	10 जन.	1,000	51	2,245	—	20	1,000	—	—	—	1,000	94.90	5.4074	24,870
2003-2004														
1 अप्रैल	4 अप्रैल	1,000	55	2,210	—	19	1,000	—	—	—	1,000	94.82	5.4964	26,126
9 जुलाई	11 जुलाई	1,000	51	2,430	29	21	1,000	29	—	—	1,029	95.28	4.9648	26,128
3 सित.	5 सित.	1,000	63	3,375	5	19	1,000	5	—	—	1,005	95.53	4.6901	26,129

* : 19 मई 1999 की नीलामी से प्रभावी, भार की राशि केवल भारिबैंक पर होगी।

\$: 2 जून 1999 की नीलामी से प्रभावी, अप्रतिस्पर्धी बोलियों की अनुमति दी गई।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भारि बैंक के पास संचयी नकद शेष

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 सित. 2003	23 अगस्त	24 अगस्त	25 अगस्त	26 अगस्त	27 अगस्त	28 अगस्त	29 अगस्त	30 अगस्त	31 अगस्त	1 सित.	2 सित.	3 सित.	4 सित.	5 सित.
	69,750	1,39,501	2,16,207	2,84,101	3,47,141	4,09,739	4,76,489	5,43,453	6,10,417	6,70,901	7,31,706	7,92,310	8,53,888	9,24,994
19 सित. 2003	6 सित.	7 सित.	8 सित.	9 सित.	10 सित.	11 सित.	12 सित.	13 सित.	14 सित.	15 सित.	16 सित.	17 सित.	18 सित.	19 सित.
	71,280	1,42,560	2,06,369	2,68,386	3,30,928	3,98,594	4,70,316							

टिप्पणी : आंकड़े पखवाड़े के दौरान संचयी आधार पर भारि बैंक के पास रखी जाने वाली अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद से संबंधित हैं।

13. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किये गये जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
4 अक्टू. 2002	1,270	169	5.20 — 8.25
10 जन. 2003	1,199	59	4.37 — 6.61
4 अप्रैल 2003	1,188	25	5.25 — 7.40
11 जुलाई 2003	2,242	44	4.45 — 6.25
25 जुलाई 2003	2,466	759	5.25 — 6.75
8 अगस्त 2003	2,741	328	4.25 — 6.75

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दायरा।

14. कम्पनियों द्वारा जारी किये गये वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 अक्टू. 2002	8,589	1,134	6.13 — 8.25
15 जन. 2003	8,645	886	5.70 — 7.50
15 अप्रैल 2003	5,839	752	5.25 — 8.15
15 जुलाई 2003	7,069	1,142	5.15 — 6.80
31 अगस्त 2003	7,646	648	5.00 — 6.65
15 सित. 2003	7,212	816	4.69 — 6.60

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू विशिष्ट वार्षिक बढ़ा दर का दायरा।

15. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2002	2003		पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		31 अगस्त	5 जुलाई*	30 अगस्त #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.00	167.5	173.7	174.0	0.2	0.3	1.0	3.9
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	176.5	181.8	178.1	-0.5	-1.8	-0.1	0.9
(i) फल और सब्जियां	2.92	203.4	193.7	178.0	-3.8	-9.0	-2.2	-12.5
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और स्नेहक	14.23	237.6	249.3	249.5	0.8	0.8	-2.7	5.0
विनिर्मित उत्पाद	63.75	148.7	154.1	155.7	0.3	1.0	2.8	4.7
i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	138.1	132.9	141.8	0.4	1.4	9.7	2.7
ii) खाद्य तेल	2.76	141.0	157.2	155.4	0.2	-0.8	2.9	10.2
iii) सीमेंट	1.73	142.5	146.3	143.9	—	-0.8	-2.2	1.0
iv) लोहा और इस्पात	3.64	144.5	166.1	186.4	0.2	12.2	24.1	29.0

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

16. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2002	2003				
	12 सित.	8 सित.	9 सित.	10 सित.	11 सित.	12 सित.
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	3131.34	4434.25	4425.20	4434.26	4393.13	4305.91
एसएण्डपी सीएनएस निफ्टी (3.11.1995=1000)	1001.65	1417.35	1407.05	1409.55	1403.15	1372.10

17. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त (टर्नओवर)*

(करोड़ रुपये)

	निम्न को समाप्त सप्ताह						
	1 अगस्त 2003	8 अगस्त 2003	15 अगस्त 2003	22 अगस्त 2003	29 अगस्त 2003	5 सित. 2003	12 सित. 2003
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिये गये उधार	3,531	3,409	4,534	3,660	4,449	2,789	4,212
ख) दिये गये ऋण	4,674	3,869	6,360	7,515	7,007	4,096	6,616
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिये गये उधार	5,262	5,406	6,642	7,939	7,680	6,011	7,140
ख) दिये गये ऋण	166	182	225	96	188	199	123
3. बैंकेतर संस्थाएं							
क) दिये गये ऋण	2,981	3,501	3,503	2,930	3,240	3,273	3,238
4. कुल							
क) लिये गये उधार	8,793	8,815	11,176	11,599	12,129	8,800	11,352
ख) दिये गये ऋण	7,821	7,552	10,088	10,541	10,435	7,568	9,977

* : इनमें प्रतिभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेनों के 90-95 प्रतिशत आंकड़े शामिल हैं।

ये आंकड़े सप्ताह के लिए दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

18. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य) @

(करोड़ रुपये)

मद	निम्न को समाप्त सप्ताह					
	8 अगस्त 2003	15 अगस्त 2003	22 अगस्त 2003	29 अगस्त 2003	5 सित. 2003	12 सित. 2003
1	2	3	4	5	6	7
I. सीधा (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां	99,314	1,14,101	79,171	1,20,475	66,673	70,365
ख) राज्य सरकार प्रतिभूतियां	655	1,506	619	1,464	1,000	604
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	2,594	3,296	2,682	3,751	3,323	2,504
घ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	1,194	2,005	3,005	3,870	3,040	2,710
II. भारतीय रिज़र्व बैंक *	—	—	11,479	20	55	5,007

@ : रेपो लेनदेनों को छोड़कर।

* : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद में उसके अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

19. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डालर)

निम्नलिखित तारीख को स्थिति	वणिक्						अंतर-बैंक					
	विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपया			विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा			विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपया			विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	स्वैप	वायदा	हाजिर	स्वैप	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
25 अगस्त 2003	499	439	91	24	88	19	1418	1109	44	368	223	6
26 अगस्त 2003	413	258	113	22	47	16	846	1078	44	617	197	7
27 अगस्त 2003	576	226	145	7	19	51	1040	1382	42	598	570	14
28 अगस्त 2003	411	318	83	11	29	28	1077	1759	56	509	377	8
29 अगस्त 2003	616	390	138	12	52	32	904	1868	54	517	409	8
बिक्री												
25 अगस्त 2003	461	239	158	23	37	23	1413	1141	75	354	185	7
26 अगस्त 2003	347	208	205	10	74	15	868	955	78	599	235	7
27 अगस्त 2003	585	306	199	10	43	32	1069	1493	156	612	538	22
28 अगस्त 2003	373	155	84	11	34	26	1291	2007	165	530	370	5
29 अगस्त 2003	456	205	181	64	48	49	974	1899	95	531	333	9

एफ सी वाय : विदेशी मुद्रा ।

आई एन आर : भारतीय रुपया ।

टिप्पणी : ये आंकड़े वणिक् और अंतर-बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

20. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपये)

	समाप्त सप्ताह					
	9 अगस्त 2003	16 अगस्त 2003	23 अगस्त 2003	30 अगस्त 2003	6 सित. 2003	13 सित. 2003
1	2	3	4	5	6	7
राशि	36.90	40.77	119.24	119.42	75.33	28.43

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

21. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपये)

धारक	12 सित. 2003				कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल			कुल (2+3+4)	सप्ताह की तुलना में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	-1,019
बैंक	—	7,844	17,664	25,508	893	-3,385
राज्य सरकारें	5,001	500	—	5,501	-442	-893
अन्य	258	4,694	8,465	13,417	87	8,263

22. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार - 2003-04
(भा.रि.बैंक पर भार (डिवाल्मेंट)/ निजी स्थानन तथा खुला बाजार परिचालन में बिक्री / खरीद)

(अंकित मूल्य करोड़ रुपये में)

	जुटायी गयी सकल राशि			जुटायी गयी निवल राशि		
	2003-2004 (12 सित. 2003 तक)	2002-2003 (13 सित. 2002 तक)	2002-2003	2003-2004 (12 सित. 2003 तक)	2002-2003 (13 सित. 2002 तक)	2002-2003
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जिसमें :	94,434*	84,000	1,25,000	62,316	61,595	97,580
1.1 भारिबैं पर भार / निजी स्थानन	5,000	23,175	36,175			
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन - बिक्री खरीद	22,285	26,934	53,780			
	—	—	—			

* : इनमें रु.14,434 करोड़ शामिल हैं जो सरकारी ऋण पुनर्खरीद योजना के अंतर्गत 22 जुलाई 2003 को पुनः जारी चार प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य है।

23. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य) @

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	5 सित. 2003 को समाप्त सप्ताह				12 सित. 2003 को समाप्त सप्ताह			
	राशि	परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**		राशि	परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**			
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम		
1	2	3	4	5	6	7		
I. सीधा (आउटराइट) लेन देन								
1. सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां								
परिपक्वता वर्ष								
2003-04	255	4.6341	4.7216	290	4.6972	4.8164		
2004-05	87	4.7259	4.8380	36	4.7729	4.8242		
2005-06	210	4.7492	4.7743	270	4.7681	4.8481		
2006-07	485	4.8107	4.8573	191	4.8201	4.8961		
2007-08	346	4.8560	4.9937	115	4.8682	5.0003		
2008-09	782	4.8794	5.1262	1,067	4.8914	5.2221		
2009-12	5,024	4.9777	5.6685	3,952	4.9905	5.4074		
2012-13	3,901	5.1939	5.2555	3,527	5.2135	5.3563		
2013 से आगे	22,247	5.2584	6.1067	25,734	5.2714	6.1251		
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	500	5.7529	6.1998	302	5.5500	6.1727		
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)								
क) 14 दिनों तक	85	3.4229	4.6853	73	3.7623	4.8783		
ख) 15 - 91 दिन	1,813	4.3562	4.7468	1,611	4.2942	4.6473		
ग) 92 - 182 दिन	19	3.3373	4.6011	67	4.5874	4.6573		
घ) 183 - 364 दिन	1,265	4.5674	4.7370	836	4.5675	4.7226		
II. भा.रि.बैं.* : बिक्री	55			5,007				
: खरीद	—			—				
III. रेपो कारोबार ₹ (भा. रि. बैं. से इतर)								
	राशि	दर (% वार्षिक)		राशि	दर (% वार्षिक)			
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम		
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	18,322	3.00 (1)	4.65 (7)	13,702	3.00 (1)	4.65 (24)		
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	423	4.00 (1)	4.15 (3)	185	4.05 (1)	4.15 (7)		
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	908	3.50 (1)	4.65 (4)	819	4.05 (1)	4.30 (14)		
4. 364 - दिवसीय खजाना बिल	466	4.00 (1)	4.65 (3)	733	4.00 (1)	4.40 (4)		
IV. भा.रि.बैं. : रेपो ₹^	1,36,685	4.50	—	96,960	4.50	—		
: रिवर्स रेपो !	—	—	—	—	—	—		

@ : भा.रि.बैं., मुंबई के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना के अनुसार, जो वर्तमान में देश के कुल कारोबार का लगभग 98 प्रतिशत है।

* : भा.रि.बैं. बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में हुए लेनदेन भी शामिल हैं।

₹ : कारोबार का पहला चरण (फ्रंट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो नीलामी से संबंधित आंकड़े।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

** : न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) मानकेतर आकार समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रेपो अवधि दर्शाते हैं।

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाये।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अंतिम

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक 2003 के लिए वार्षिक शुल्क भारत में **रु.400** (डाक व्यय सहित) और विदेश के लिए **80 अमरीकी डालर** (हवाई डाक प्रभार सहित) है। एक प्रति का मूल्य **रु.8/-** है।श्री राजीव रंजन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई - 00 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा **प्रिंटराइट**, 24-बी, अंबालाल दोशी मार्ग, हमाम स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001 में मुद्रित।

पंजीकरण सं.आरएन.43801/86

पंजीकृत सं.

टेक/47-400 / एमबीआइ / 2003-05